

GST संबंधी चुनौतियों का समाधान

प्रलिस के लिये:

[वस्तु एवं सेवा कर](#), [आर्थिक सुधार वकर](#), [राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय](#), [इनपुट टैक्स क्रेडिट](#), 101वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 2016

मेन्स के लिये:

भारत में GST से संबंधित वर्तमान प्रमुख चुनौतियाँ, GST परिषद

[स्रोत: द हट्टि](#)

चर्चा में क्यों?

हालिया [वस्तु एवं सेवा कर \(Goods and Services Tax- GST\)](#) राजस्व डेटा एक चिंताजनक परिदृश्य उजागर करता है जिसके अनुसार भारतीय राज्यों में उपभोग वृद्धि एक समान नहीं है जिससे राष्ट्रीय [आर्थिक सुधार](#) में संभावित असंगति का पता चलता है।

हाल के GST से संबंधित आँकड़ों के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- **कुल GST संग्रह:** वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के प्रथम नौ महीनों में इसमें 11.7% की वृद्धि दर्ज की गई।
 - **केंद्रीय GST की तुलना में राज्य GST संग्रह उच्च दर (15.2%) से बढ़ा** जो राज्यों में मौजूद विविध उपभोग/खपत स्वरूप का सुझाव देता है।
- **राज्यों के बीच असमानताएँ:** मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों में राज्य GST राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि (17% से 18.8%) दर्ज की गई जबकि गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में एकल-अंकीय वृद्धि हुई।
- **सबसे कम नज्जी उपभोग वसितार:** [राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय \(National Statistical Office- NSO\)](#) का अनुमान है कि वर्तमान वर्ष के लिये नज्जी अंतिम उपभोग व्यय (Private Final Consumption Expenditure- PFCE) की वृद्धि केवल 4.4% होगी जो वर्ष 2002-03 (महामारी के समय के अतिरिक्त) के बाद से सबसे धीमी है।
 - **PFCE को नविसी परिवारों और परिवारों की सेवा करने वाले गैर-लाभकारी संस्थानों (Non-Profit Institutions Serving Households- NPISH)** द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं की अंतिम खपत पर किये गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, इसमें आर्थिक क्षेत्र के भीतर अथवा बाह्य व्यय दोनों शामिल हैं।

वस्तु एवं सेवा कर क्या है?

- **परिचय:** GST एक मूल्य वर्द्धति कर प्रणाली है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है।
 - यह एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जिससे 1 जुलाई, 2017 को 101वाँ संवधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से 'एक राष्ट्र एक कर' के नारे के साथ भारत में लागू किया गया था।
- **कर स्लैब:** नियमित करदाताओं के लिये प्रथमिक GST स्लैब वर्तमान में 0% (शून्य-रेटेड), 5%, 12%, 18% और 28% हैं।
 - कुछ GST दरें हैं जिनका आमतौर पर कम उपयोग किया जाता है, जैसे- 3% और 0.25%।
- **GST के लाभ:**
 - **सरलीकृत कर व्यवस्था:** GST ने कई अप्रत्यक्ष करों को प्रतिसिथापित कर दिया, जिससे अनुपालन आसान हो गया और व्यवसायों के लिये कागजी कार्रवाई कम हो गई।
 - **पारदर्शिता में वृद्धि:** ऑनलाइन GST पोर्टल कर प्रशासन को सरल बनाता है और प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
 - **कर का बोझ कम होना:** व्यापक करों के समाप्त होने से कीमतें कम होने से उपभोक्ताओं को लाभ होता है।
 - **आर्थिक विकास को बढ़ावा:** कर बाधाओं को दूर करके और दक्षता में सुधार करके, GST से उच्च आर्थिक विकास तथा रोजगार सृजन में योगदान की उम्मीद है।
- **GST परिषद:** GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में GST के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर सफ़ारिशें करने के लिये

ज़िम्मेदार है।

- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279A (1) के अनुसार, GST परिषद का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया गया था।

भारत में GST से संबंधित वर्तमान प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **जटिलता और अनुपालन बोझ:** भारत में GST में कई कर स्लैब के साथ एक जटिल संरचना है, जिससे अनुपालन आवश्यकताओं में वृद्धि हुई है।
 - यह जटिलता व्यवसायों, विशेषकर छोटे उद्यमों के लिये विविध नयियों को समझने और उनका पालन करने में एक चुनौती पेश करती है।
- **प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचे की तैयारी:** GST का सफल कार्यान्वयन काफी हद तक मज़बूत तकनीकी बुनियादी ढाँचे पर निर्भर करता है। व्यवसायों के बीच तकनीकी तत्परता की कमी और प्रौद्योगिकी को अपनाने में असमानता जैसे मुद्दे GST नेटवर्क के निर्बाध कामकाज में बाधा बन सकते हैं।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) सत्यापन:** सरकारी अधिकारियों ने हाल ही में GST बकाया की चोरी में शामिल 29,000 से अधिक फर्जी फर्मों की पहचान की है और उनका भंडाफोड़ किया है।
- **सभी राज्यों में एकाधिक पंजीकरण:** कई राज्यों में काम करने वाले व्यवसायों को GST अनुपालन के लिये प्रत्येक राज्य में अलग-अलग पंजीकरण करना होगा।
 - पंजीकरण की यह बहुलता प्रशासनिक बोझ बढ़ाती है और अखिल भारतीय उपस्थिति वाले व्यवसायों के लिये अनुपालन लागत बढ़ाती है, जिससे लॉजिस्टिक चुनौतियों में योगदान होता है।

आगे की राह

- **कर संरचना को सरल और तर्कसंगत बनाना:** कर स्लैब की संख्या को कम करके GST कर संरचना को सरल बनाना।
 - अधिक स्पष्ट और एकसमान कर प्रणाली, व्यवसायों के लिये अनुपालन को आसान बनाएगी तथा कर दायित्वों की स्पष्ट समझ को बढ़ावा देगी।
- **अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना:** व्यवसायों पर प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिये अनुपालन प्रक्रियाओं को सरल और सुव्यवस्थित करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। इसमें रटिर्न फाइलिंग प्रक्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना, समय पर रफिंड सुनिश्चित करना और टैक्स फाइलिंग के लिये उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस लागू करना शामिल हो सकता है।
- **कर चोरी-रोधी उपायों पर ध्यान देना:** विशेष रूप से नकली चालान और धोखाधड़ी गतिविधियों के माध्यम से कर चोरी को रोकने के उपायों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।
 - संदिग्ध लेनदेन की पहचान करने के लिये उन्नत डेटा एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी का उपयोग करना तथा धोखाधड़ी प्रथाओं को रोकने के लिये गैर-अनुपालन हेतु कड़े दंड लागू करना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

?????????:

प्रश्न1. नमिनलखिति मर्दों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. छलिका उतरे हुए अनाज
2. मुरगी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधति और डबिबाबंद मछली
4. वजिजापन सामग्री युक्त समाचार पत्र

उपर्युक्त मर्दों में से कौन-सी वस्तु/वस्तुएँ जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्रापत है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

प्रश्न2. 'वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एवं सर्वसिज़ टैक्स/GST)' के क्रयान्वति कयि जाने का/के सर्वाधिक संभावति लाभ क्या है/हैं? (2017)

1. यह भारत में बहु-प्राधिकरणों द्वारा वसूल कयि जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाज़ार स्थापति करेगा।
2. यह भारत के 'चालू खाता घाटे' को प्रबलता से कम कर वदिशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु इसे सकषम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को वृहद रूप से बढ़ाएगा और उसे नकित भवषिय में चीन से आगे नकिलने में सकषम बनाएगा।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (a)

प्रश्न. वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतपूर्ति) अधिनियम, 2017 के तर्काधार की व्याख्या कीजिये। कोवडि-19 ने कैसे वस्तु एवं सेवा कर क्षतपूर्ति नधि को प्रभावति कयि है और नए संघीय तनावों को उत्पन्न कयि है? (2020)

प्रश्न. उन अप्रत्यक्ष करों को गनाइये जो भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सम्मलित कयि गए हैं। भारत में जुलाई 2017 से क्रयान्वति जीएसटी के राजस्व नहितार्थों पर भी टपिपणी कीजिये। (2019)

प्रश्न. संवधान (101वाँ संशोधन) अधिनियम, 2016 की मुख्य वशिषताओं की व्याख्या कीजिये। क्या आपको लगता है कयिह "करों के प्रपाती प्रभाव को दूर करने और वस्तुओं तथा सेवाओं के लयि सामान्य राष्ट्रीय बाज़ार प्रदान करने" हेतु पर्याप्त रूप से प्रभावी है? (2017)

प्रश्न. भारत में माल व सेवा कर (GST) प्रारंभ करने के मूलाधार की वविचना कीजिये। इस व्यवस्था को लागू करने में वलिंब के कारणों का समालोचनात्मक वर्णन कीजिये। (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/navigating-gst-challenges>

